

स्थान/Place: Mumbai

तारीख/Date:08.10.2018

प्रेस विज्ञप्ति

बैंक ऑफ़ बड़ौदाने मनाया वार्षिक राजभाषा समारोह 2018

मुंबई: बैंक ऑफ़ बड़ौदा, मुंबई अंचल द्वारा वार्षिक राजभाषा समारोह 2018 एवं कवि सम्मेलन का भव्य आयोजन 5 अक्टूबर 2018 को किया गया. समारोह की अध्यक्षता मुंबई अंचल के महाप्रबंधक श्री नवतेज सिँह ने की. इस अवसर पर उप अंचल प्रमुख श्री जे. पी. सिंह अरोड़ा, अंचल के 150 अधिक शाखाओं के प्रमुख एवं अन्य कार्यपालकगण उपस्थित थे.

कार्यक्रम के प्रारंभ में श्री नवतेज सिँह ने सभी कवियों एवं स्टाफ सदस्यों का स्वागत किया. देश के प्रख्यात कविजनों - डॉ. अनंत श्रीमाली, श्री दिनेश बावरा, सुश्री प्रज्ञा विकास एवं श्री रोहित शर्मा को आमंत्रित किया गया था. सभी कवियों ने अपने प्रभावी प्रस्तुति के माध्यम से सभी दर्शकों का मन मोह लिया. इस अवसर पर श्री मयंक के मेहता, पूर्व कार्यपालक निदेशक द्वारा तिमाही हिन्दी पत्रिका 'मुंबई भास्कर' के नवीनतम अंक का भी विमोचन किया गया. हिन्दी दिवस के अवसर पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया. आभार प्रदर्शन उप महाप्रबंधक श्री जे. पी. सिंह अरोड़ा ने किया तथा संचालन वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा) श्री अमर साव ने किया.

--Sd/--

पी.एस. राव

(सहायक महाप्रबंधक)

(विपणन एवं सोशल मीडिया)

BCC/CPR/2018/482